

## CHO, MP दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश (NHM, MP) ने CHO दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, और जबलपुर में 03 फरवरी, 2021 से 06 फरवरी, 2021 तक आयोजित करने का प्रयोजन किया है।

इस सम्बन्ध में एक दस्तावेज सत्यापन अनुसूची (Document Verification Schedule) [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) पर अपलोड की जाएगी तथा अनुसूची के अनुसार उम्मीदवारों को आवंटित दस्तावेज सत्यापन केंद्रों पर अनिवार्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा:

- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म (पूर्ण रूप से भरा हुआ) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म में उल्लिखित अनिवार्य दस्तावेज

उम्मीदवार उपरोक्त दस्तावेज का प्रारूप [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

### महत्वपूर्ण लेख:

- (1) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) पर अपलोड किए गए दस्तावेज सत्यापन अनुसूची (Document Verification Schedule) को ध्यान से देखें और अनिवार्य दस्तावेजों के साथ आवंटित अनुसूची के अनुसार दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर रिपोर्ट करें।
- (2) कृपया वेबसाइट से दस्तावेज सत्यापन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड करें।
- (3) अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे दस्तावेज सत्यापन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों (मूल दस्तावेज और सभी दस्तावेजों एक-सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी) को साथ ले जाएं जैसा कि दस्तावेज सत्यापन फॉर्म में उल्लेख किया गया है।
- (4) उम्मीदवार को सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी मूल आईडी प्रमाण साथ ले जाने की आवश्यकता है।
- (5) यदि उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के आधार पर असफल कर दिया जाएगा एवं दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा।
- (6) निर्धारित तिथि और स्थल पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (7) केवल आवंटित दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार किसी अन्य केंद्र को रिपोर्ट करेगा, तो उसका दस्तावेज सत्यापित नहीं किया जाएगा।